2-परिवार सदस्य क्रमांक



## मध्यप्रदेश शासन – समग्र सामजिक सुरक्षा कार्यक्रम (ग्रामीण क्षेत्र) परिवार के सदस्य की जानकारी (Version 6.0)

(2T)	
SSSM	

KYC+M-R

म्बर	श्रमाक								
1-सदस्य का नाम				2-पिता, माता, पति, पत्नी	3-मुखिया से संबध	4- सट	रस्य क्या व	नार्य/व्यवसाय क	रता हैं
5-लिंग 1-पुरुष		न्म दिनांक / /		पिता का क्रमांक	<ol> <li>स्वयं</li> <li>पिता / माता</li> </ol>	$\dashv$ $\sqsubseteq$	शासकीय से अशासकीय से		
7-मोबाइल नं.  9-AADHAR Card No (UID)  10- वैवाहिक स्तर 1-अविवा  11- शैक्षणिक स्तर 1- 3  12-अध्ययनरत हैं/अध्ययन व	मध्ययनरत हैं 2- अध्ययन	विधुर 4-परित्यक्ता 5-तल् । कर चुका हैं 3- निरक्षर	लाकशुदा र हैं r (Polytechni	पति/ पत्नी का क्रमांक	<ul> <li>अाई / बहन</li> <li>पुत्र / पुत्री</li> <li>पति / पत्नी</li> <li>पुत्रवधु / दामाव</li> <li>पोता / पोती</li> <li>सास / ससुर</li> <li>अन्य (दत्तक)</li> </ul>	d :	कृषि	य, व्यवपार एवं उ ुपालन / मत्स्य प	
13-यदि अध्ययनरत हैं तो व कक्षा मे अध्यय		दे विद्यार्थी कक्षा 1 से 8 में हैं ल का DISE Code	5		15-कुल वार्षिक आग	मदनी (स्वंयः	की ) रु		
		0 07475 00400			17- मतदाता सूची क्रम	<del>.</del> iक			
16-स्कूल का प्रकार 16.1 -स्कूल का नाम-कोड / व	1- CBSE   2- ISC जॅलेज का नाम / संस्था का न	3- STATE BOARD	3- OTHE	ERS	17 - नतपाता सूपा प्रान				
16.1 -स्कूल का नाम-कोड / व -क्या सदस्य स्वंय श्रमिक संव	जॅलेज का नाम / संस्था का न			C 1-क्या नि:शक्त हैं	हाँ नहीं	यदि हॉ तो			
16.1 -स्कूल का नाम-कोड / व -क्या सदस्य स्वंय श्रमिक संव ोजना अंतर्गत पंजीकृत हैं	जॅलेज का नाम / संस्था का न	пम		<b>1-क्या नि:शक्त हैं</b> 2-नि:शक्तता का	हाँ नहीं	यदि हॉ तो 3-नि:शव	न्तता का प्रति		
16.1 -स्कूल का नाम-कोड / व -क्या सदस्य स्वंय श्रमिक संव ोजना अंतर्गत पंजीकृत हैं मुख्यमंत्री मज	गॅ <b>लेज का नाम / संस्था का न</b> र्ग की किसी हॉ/नहीं 2	пम		<b>1-क्या नि:शक्त हैं</b> 2-नि:शक्तता का 1 अंधता	हाँ नहीं प्रकार क्या हैं	यदि हॉ तो 3-नि:शक 4-नि:शक	न्तता का प्रति न्तता प्रमाण	पत्र क्रमांक	
16.1 -स्कूल का नाम-कोड / व - क्या सदस्य स्वंय श्रमिक संव ोजना अंतर्गत पंजीकृत हैं मुख्यमंत्री मज भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मक	र्ग की किसी हॉ/नहीं 2  द्र सुरक्षा कार्ड  ार मण्डल कार्ड	пम		2-नि:शक्त हैं 2-नि:शक्तता का 1 अंधता 2 कम हिष्ट	हाँ नहीं प्रकार क्या हैं : (दृष्टि बाधित)	यदि हॉ तो 3-नि:शक 4-नि:शक	न्तता का प्रति	पत्र क्रमांक	
16.1 -स्कूल का नाम-कोड / व क्या सदस्य स्वंय श्रमिक संव गोजना अंतर्गत पंजीकृत हैं मुख्यमंत्री मज भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मक हम्माल एवं तुलाव	र्ग की किसी हॉ/नहीं 2  द्र सुरक्षा कार्ड  ार मण्डल कार्ड	пम		2-नि:शक्तता का 1 अंधता 2 कम दृष्टि 3 कुष्ठरोग व	हाँ नहीं प्रकार क्या हैं : (दृष्टि बाधित)	यदि हॉ तो 3-नि:शक 4-नि:शक 5-नि:शक	न्तता का प्रति न्तता प्रमाण न्तता प्रमाण पत्र जारी चि	पत्र क्रमांक पत्र दिनांक	
16.1 -स्कूल का नाम-कोड / व क्या सदस्य स्वंय श्रमिक संव ोजना अंतर्गत पंजीकृत हैं मुख्यमंत्री मज भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मक हम्माल एवं तुलाव	र्ग की किसी हॉ/नहीं 2  स्ट्र सुरक्षा कार्ड  रि योजना कार्ड	2-कार्ड नंबर 3-जारी वि 3-किस माह वर्ष से पेंशन/ सहा	देनांक	2-नि:शक्तता का 1 अंधता 2 कम दृष्टि 3 कुष्ठरोग व	हाँ नहीं प्रकार क्या हैं (हष्टि बाधित) मुक्त केत का हास (श्रवणबाधित) शक्तता (अस्थि बाधित)	यदि हॉ तो 3-नि:शक 4-नि:शक 5-नि:शक 6-प्रमाण	न्तता का प्रति न्तता प्रमाण न्तता प्रमाण पत्र जारी चि	पत्र क्रमांक पत्र दिनांक	
16.1 -स्कूल का नाम-कोड / व - क्या सदस्य स्वंय श्रमिक संव गोजना अंतर्गत पंजीकृत हैं मुख्यमंत्री मज भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मक हम्माल एवं तुलाव	र्ग की किसी हॉ/नहीं 2  दूर सुरक्षा कार्ड  तर मण्डल कार्ड  टी योजना कार्ड  NREGA कार्ड  हॉ/नहीं 2-पंशन/सहायता स्वीकृति क्रमांक	<b>ाम</b> २-कार्ड नंबर 3-जारी वि	देनांक	2 - क्या नि:शक्त हैं         2 - नि:शक्तता का       1 अंधता         2 कम दृष्टि       3 कुष्ठरोग व         4 श्रवण शिंव       5 चलन नि:	हाँ नहीं  प्रकार क्या हैं  (हष्टि बाधित)  मुक्त  सेत का हास (श्रवणबाधित)  शक्तता (अस्थि बाधित)	यदि हॉ तो 3-नि:शक 4-नि:शक 5-नि:शक 6-प्रमाण	न्तता का प्रति न्तता प्रमाण न्तता प्रमाण पत्र जारी चि	पत्र क्रमांक पत्र दिनांक	
16.1 -स्कूल का नाम-कोड / व  - क्या सदस्य स्वंय श्रमिक संव ोजना अंतर्गत पंजीकृत हैं  मुख्यमंत्री मज भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मक हम्माल एवं तुलाव  -कौन-सी पंशन/अन्य सहायता का लाभ	गं की किसी हॉ/नहीं 2  दूर सुरक्षा कार्ड  तर मण्डल कार्ड  टी योजना कार्ड  NREGA कार्ड  हॉ/नहीं 2-पंशन/ सहायता स्वीकृति क्रमांक	2-कार्ड नंबर 3-जारी वि 3-किस माह वर्ष से पेंशन/ सहा	देनांक	C         1-क्या नि:शक्त हैं         2-नि:शक्तता का         1 अंधता         2 कम दृष्टि         3 कुष्ठरोग व         4 श्रवण शिं         5 चलन नि:         6 मानसिक         7 मानसिक	हाँ नहीं प्रकार क्या हैं (हष्टि बाधित) मुक्त नेत का हास (श्रवणबाधित) शक्तता (अस्थि बाधित) मंदता रूग्णता	यदि हॉ तो 3-नि:शक 4-नि:शक 5-नि:शक 6-प्रमाण संस्था का	न्तता का प्रति न्तता प्रमाण न्तता प्रमाण पत्र जारी चि नाम	पत्र क्रमांक पत्र दिनांक कित्सक /	
16.1 -स्कूल का नाम-कोड / व - क्या सदस्य स्वंय श्रमिक संव ोजना अंतर्गत पंजीकृत हैं मुख्यमंत्री मज भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मक हम्माल एवं तुलाव -कौन-सी पंशन/अन्य सहायता का लाभ एत कर रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पंशन योज	र्ग की किसी हॉ/नहीं 2  दूर सुरक्षा कार्ड  तर मण्डल कार्ड  टी योजना कार्ड  NREGA कार्ड  हॉ/नहीं 2-पेंशन/ सहायता स्वीकृति क्रमांक	2-कार्ड नंबर 3-जारी वि 3-किस माह वर्ष से पेंशन/ सहा	देनांक	C         1-क्या नि:शक्त हैं         2-नि:शक्तता का         1 अंधता         2 कम दृष्टि         3 कुष्ठरोग व         4 श्रवण शिं         5 चलन नि:         6 मानसिक         7 मानसिक	हाँ नहीं  प्रकार क्या हैं  (हष्टि बाधित)  मुक्त  नेत का हास (श्रवणबाधित)  शक्तता (अस्थि बाधित)	यदि हॉ तो 3-नि:शक 4-नि:शक 5-नि:शक 6-प्रमाण संस्था का	न्तता का प्रति न्तता प्रमाण न्तता प्रमाण पत्र जारी चि	पत्र क्रमांक पत्र दिनांक ।कित्सक /	ट ऑफिस खा
16.1 -स्कूल का नाम-कोड / व - क्या सदस्य स्वंय श्रमिक संव ोजना अंतर्गत पंजीकृत हैं मुख्यमंत्री मज भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मक हम्माल एवं तुलाव - कौन-सी पंशन/अन्य सहायता का लाभ ाप्त कर रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पंशन योज दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पंशन योज दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पंशन योज	र्ग की किसी हॉ/नहीं 2  दूर सुरक्षा कार्ड  तर मण्डल कार्ड  टी योजना कार्ड  NREGA कार्ड  हॉ/नहीं 2-पेंशन/ सहायता स्वीकृति क्रमांक	2-कार्ड नंबर 3-जारी वि 3-किस माह वर्ष से पेंशन/ सहा	देनांक	2-नि:शक्तता का 1 अंधता 2 कम दृष्टि 3 कुष्ठरोग व 4 श्रवण शि 5 चलन नि: 6 मानसिक 7 मानसिक	हाँ नहीं प्रकार क्या हैं (हष्टि बाधित) मुक्त नेत का हास (श्रवणबाधित) शक्तता (अस्थि बाधित) मंदता रूग्णता	यदि हॉ तो 3-नि:शक 4-नि:शक 5-नि:शक 6-प्रमाण संस्था का	न्तता का प्रति न्तता प्रमाण न्तता प्रमाण पत्र जारी चि नाम	पत्र क्रमांक पत्र दिनांक कित्सक /	ट ऑफिस खा
16.1 -स्कूल का नाम-कोड / व - क्या सदस्य स्वंय श्रमिक संव ोजना अंतर्गत पंजीकृत हैं मुख्यमंत्री मज भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मक हम्माल एवं तुलाव - कौन-सी पंशन/अन्य सहायता का लाभ गप्त कर रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पंशन योज्ञाः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पंशन योज्ञाः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पंशन योज्ञाः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पंशन योज्ञाः	र्ग की किसी हॉ/नहीं 2  दूर सुरक्षा कार्ड  तर मण्डल कार्ड  टी योजना कार्ड  NREGA कार्ड  हॉ/नहीं 2-पेंशन/ सहायता स्वीकृति क्रमांक	2-कार्ड नंबर 3-जारी वि 3-किस माह वर्ष से पेंशन/ सहा	देनांक	2 - नि:शक्त हैं 2 - नि:शक्तता का 1 अंधता 2 कम दृष्टि 3 कुष्ठरोग व 4 श्रवण शि 5 चलन नि: 6 मानसिक 7 मानसिक	हाँ नहीं प्रकार क्या हैं (हष्टि बाधित) मुक्त नेत का हास (श्रवणबाधित) शक्तता (अस्थि बाधित) मंदता रूग्णता	यदि हॉ तो 3-नि:शक 4-नि:शक 5-नि:शक 6-प्रमाण संस्था का	न्तता का प्रति न्तता प्रमाण न्तता प्रमाण पत्र जारी चि नाम	पत्र क्रमांक पत्र दिनांक ।कित्सक /	ट ऑफिस खा
16.1 -स्कूल का नाम-कोड / व  - क्या सदस्य स्वंय श्रमिक संव  जना अंतर्गत पंजीकृत हैं  मुख्यमंत्री मज  भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मक  हम्माल एवं तुलाव  -कौन-सी पंशन/अन्य सहायता का लाभ्य  प्रतिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पंशन योज्ञ  दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पंशन योज्ञ  दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पंशन योज्ञ  तिरा गांधी राष्ट्रीय विःशक्त पंशन योज्ञ  गमाजिक सुरक्षा पंशन योजना  कन्या अभिभावक पंशन योजना	र्ग की किसी हॉ/नहीं 2  दूर सुरक्षा कार्ड  तर मण्डल कार्ड  टी योजना कार्ड  NREGA कार्ड  हॉ/नहीं 2-पेंशन/ सहायता स्वीकृति क्रमांक	2-कार्ड नंबर 3-जारी वि 3-किस माह वर्ष से पेंशन/ सहा	देनांक 	2 - नि:शक्त हैं 2 - नि:शक्तता का 1 अंधता 2 कम हिष्ट 3 कुष्ठरोग व 4 श्रवण शिं 5 चलन नि: 6 मानसिक 7 मानसिक	हाँ नहीं प्रकार क्या हैं (हष्टि बाधित) मुक्त नेत का हास (श्रवणबाधित) शक्तता (अस्थि बाधित) मंदता रूग्णता	यदि हॉ तो 3-नि:शक 4-नि:शक 5-नि:शक 6-प्रमाण संस्था का	न्तता का प्रति न्तता प्रमाण न्तता प्रमाण पत्र जारी चि नाम	पत्र क्रमांक पत्र दिनांक ।कित्सक /	ट ऑफिस ख
16.1 -स्कूल का नाम-कोड / व  -क्या सदस्य स्वंय श्रमिक संव  पोजना अंतर्गत पंजीकृत हैं  मुख्यमंत्री मज  भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मक हम्माल एवं तुलाव  -कौन-सी पंशन/अन्य सहायता का लाभ  गप्त कर रहे हैं  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पंशन यो  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पंशन यो  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पंशन यो  सामाजिक सुरक्षा पंशन योजना  कन्या अभिभावक पंशन योजना  मंदबुद्धि/ बहुविकलांग को आर्थिक सहाय	र्ग की किसी हॉ/नहीं 2  दूर सुरक्षा कार्ड  तर मण्डल कार्ड  टी योजना कार्ड  NREGA कार्ड  हॉ/नहीं 2-पेंशन/ सहायता स्वीकृति क्रमांक	2-कार्ड नंबर 3-जारी वि 3-किस माह वर्ष से पेंशन/ सहा	<b>ायता</b>	2-नि:शक्तता का 1 अंधता 2 कम इष्टि 3 कुष्ठरोग व 4 श्रवण शि 5 चलन नि: 6 मानसिक 7 मानसिक 7 मानसिक स्वसायिक/ राष्ट्रीय बैंक हकारी बैंक स्ट ऑफिस	हाँ नहीं प्रकार क्या हैं (हष्टि बाधित) मुक्त नेत का हास (श्रवणबाधित) शक्तता (अस्थि बाधित) मंदता रूग्णता	यदि हॉ तो 3-नि:शक 4-नि:शक 5-नि:शक 6-प्रमाण संस्था का	न्तता का प्रति न्तता प्रमाण न्तता प्रमाण पत्र जारी चि नाम	पत्र क्रमांक पत्र दिनांक ।कित्सक /	ट ऑफिस खा
16.1 -स्कूल का नाम-कोड / व 4-क्या सदस्य स्वंय श्रमिक संव गोजना अंतर्गत पंजीकृत हैं मुख्यमंत्री मज भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मक हम्माल एवं तुलाव	र्ग की किसी हॉ/नहीं 2  दूर सुरक्षा कार्ड  तर मण्डल कार्ड  टी योजना कार्ड  NREGA कार्ड  हॉ/नहीं 2-पेंशन/ सहायता स्वीकृति क्रमांक	2-कार्ड नंबर 3-जारी वि 3-किस माह वर्ष से पेंशन/ सहा	दिनांक   दिनांक   टिट्ट   सह   पो   क्षे	2 - नि:शक्त हैं 2 - नि:शक्तता का 1 अंधता 2 कम हिष्ट 3 कुष्ठरोग व 4 श्रवण शिं 5 चलन नि: 6 मानसिक 7 मानसिक	हाँ नहीं प्रकार क्या हैं (हष्टि बाधित) मुक्त नेत का हास (श्रवणबाधित) शक्तता (अस्थि बाधित) मंदता रूग्णता	यदि हॉ तो 3-नि:शक 4-नि:शक 5-नि:शक 6-प्रमाण संस्था का	न्तता का प्रति न्तता प्रमाण न्तता प्रमाण पत्र जारी चि नाम	पत्र क्रमांक पत्र दिनांक ।कित्सक /	ट ऑफिस खा

मकान	नम्बर
0197101	9 10 9 X

परिवार क्रमांक



## मध्यप्रदेश शासन — समग्र सामजिक सुरक्षा कार्यक्रम (ग्रामीण क्षेत्र) परिवार के सदस्यों की जानकारी की पुष्टि एवं सत्यापन



KYC+F-R

G जानकारी देने वाले का 1-नाम 2-हस्ताक्षर 3-अगूठा			H जानक 1-नाम 2- हस्ता	
पुष्टिकर्ता के हस्ताक्षर 1-सरपंच	2-ग्राम पंचायत सचिव	3-वार्ड सदस्य / वन समिति का सदस्य कोटवार / चौकीदार		
J सत्यापनकर्ता 1-पटवारी	2-आर.आई.	3-CEO JP		
K अन्य अधिकारी जिसे जिला  1-पदनाम  2-हस्ताक्षर  3- दिनांक	प्रशासन द्धारा अधिकृत किय	ग गया हों		